



## केन्द्रीय विद्यालय गांधीग्राम डिंडीगुल

### चुनौती हिमालय की



### कठिन शब्द

1. नवयुवक
2. प्रश्नसूचक
3. आपत्ति
4. सफर
5. लालिमा
6. वनस्पति
7. चट्टानी
8. इलाका
9. स्वागत
10. सुकून

11. ताज़गी
12. उपचार
13. सहारा
14. आकर्षित
15. गहरी

### शब्दार्थ

1. आकर्षण - अच्छी लगने वाली चीज़
2. ग्लेशियर - बर्फ़ का बड़ा विशाल जमाव
3. निर्गम - जिस रास्ते पर कोई जाता न हो
4. लालिमा - लाली
5. सुकून - शांति

### 3. निम्न शब्दों के वचन बदलिए

1. रस्सी - रस्सियाँ
2. किरण - किरणे
3. चट्टान - चट्टानें
4. खाई- खाइयाँ
5. आँख - आँखे
6. वादी - वादियाँ
7. हथेली - हथेलियाँ

### 4. प्रश्नों के उत्तर लिखिए

प्रश्न 1) किशन कौन था ? वह क्या काम कर रहा था?

उत्तर- जवाहरलालजी की अमरनाथ तक की सफ़र में किशन उनके गाइड थे।

प्रश्न 2) तिब्बत पठार के दृश्य का वर्णन करें ?

उत्तर- तिब्बत पठार का दृश्य इस प्रकार था -

दूर-दूर तक वनस्पति -रहित उजाड़ चट्टानी इलाका दिखाई दे रहा था।

पहाड़ों पर बर्फ ढके रहते थे। दूर से छोटे -छोटे ग्लेशियर दिखाई दे रहा था। ठंडी हवा बह रही थी।

प्रश्न 3) बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ों के उदास और फीके लगने की क्या वजह हो सकती थी?

उत्तर- सूरज के किरणों के बिना बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ उदास और फीके लग रहे थे।

प्रश्न 4) जवाहरलाल को अमरनाथ का सफ़र अधूरा क्यों छोड़ना पड़ा ?

उत्तर- आगे का रास्ता गहरी और चौड़ी खाइयों वाला था। खाइयाँ पर करने का उचित सामान भी नहीं था। इसलिए जवाहरलाल को अमरनाथ का सफ़र अधूरा छोड़ना पड़ा।

प्रश्न 5) विश्व की सबसे ऊँची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले भारत के सबसे पहले व्यक्ति कौन थे ?



उत्तर- विश्व की सबसे ऊँची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले भारत के सबसे पहले व्यक्ति अवतार सिंह चीमा थे।

प्रश्न 6) पहली भारतीय महिला जिन्होंने एवरेस्ट पर तिरंगा झंडा फहराया, उनका क्या नाम है?



उत्तर- बचेंद्री पाल भारत की पहली महिला है जिन्होंने एवरेस्ट पर तिरंगा झंडा फहराया ।

रचनात्मक लेखन

जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में लिखिए



जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवम्बर, 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू थे और माँ स्वरूप रानी नेहरू थी। उन्होंने अपनी प्रारम्भिक शिक्षा घर पर प्राप्त की। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए। सन 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली। नेहरूजी को प्रथम प्रधानमंत्री चुना गया। उन्होंने देश की गरीबी को दूर करने का प्रयत्न किया।

\*\*\*\*\*